



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

८ श्रावण १९३१ (श०)
(सं० पटना ३९४) पटना, वृहस्पतिवार, ३० जुलाई २००९

विधि विभाग

अधिसूचना

३० जुलाई २००९

सं० एल०जी०-१-११/२००९/लेज: ४७— बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर राज्यपाल दिनांक २९ जुलाई, २००९ को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है:-

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
दिलीप कुमार सिन्हा,
प्रभारी सचिव।

[बिहार अधिनियम, 05/2009]

बिहार विनियोग (संख्या 2) अधिनियम, 2009

बिहार राज्य की संचित निधि में से 31 मार्च 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष की सेवा के लिए शोधन और विनियोग प्राधिकृत करने के निमित्त अधिनियम ।

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो ।—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।—(1) यह अधिनियम बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2009 कहा जा सकेगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह 1 अप्रैल 2009 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

2. 31 मार्च 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए बिहार राज्य की संचित निधि में से 47614,29,75,000 (सैंतालीस हजार छह सौ चौदह करोड़ उनतीस लाख पचहत्तर हजार) रुपये की निकासी ।—बिहार राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित सेवाओं के बारे में, 31 मार्च 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर शोधन के दौरान में आने वाले अनेक भारों की पूर्ति के लिए अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित राशियों से अनधिक राशियां, जो कुल मिलाकर बिहार विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम 2009 के अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित राशियों सहित 47614,29,75,000 (सैंतालीस हजार छह सौ चौदह करोड़ उनतीस लाख पचहत्तर हजार) रुपये शोधित की जा सकेगी और प्रयोग में लायी जा सकेगी ।

3. विनियोग- इस अधिनियम द्वारा जिन राशियों को बिहार राज्य की संचित निधि में से शोधित और प्रयुक्त करने का प्राधिकार दिया गया है, उन्हें 31 वीं मार्च 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के निमित्त विनियुक्त किया जायेगा ।

अनुसूची
(धाराएं 2 और 3 देखें)

मांग/ विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	अनधिक राशियां		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
1	कृषि विभाग	राजस्व	5893410000		5893410000
		पूंजी	800000000		800000000
2	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	राजस्व	2610230000		2610230000
		पूंजी	0		0
3	भवन निर्माण विभाग	राजस्व	2450384000		2450384000
		पूंजी	606307000		606307000
4	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	राजस्व	617757000		617757000
		पूंजी	969000000		969000000
5	राज्यपाल सचिवालय	राजस्व	0	43381000	43381000
		पूंजी	0		0
6	निर्वाचन विभाग	राजस्व	1899502000		1899502000
		पूंजी	0		0
7	निगरानी विभाग	राजस्व	186395000		186395000
		पूंजी	0		0
8	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	राजस्व	419262000		419262000
		पूंजी	255900000		255900000
9	सहकारिता विभाग	राजस्व	1493303000		1493303000
		पूंजी	287323000		287323000
10	उर्जा विभाग	राजस्व	7571431000		7571431000
		पूंजी	10047600000		10047600000
11	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	राजस्व	1022772000		1022772000
		पूंजी	100000000		100000000
12	वित्त विभाग	राजस्व	3551575000		3551575000
		पूंजी	259398000		259398000
13	सूद भुगतान	राजस्व	0	41701508000	41701508000
		पूंजी	0		0
14	ऋण अदायगियां	राजस्व	0		0
		पूंजी	0	18841136000	18841136000

मांग/ विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	अनधिक राशियां		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
15	पेंशन	राजस्व	37790085000	31980000	37822065000
		पूंजी	0	0	0
16	पंचायती राज विभाग	राजस्व	11911399000		11911399000
		पूंजी	0		0
17	वाणिज्य-कर विभाग	राजस्व	521226000		521226000
		पूंजी	39900000		39900000
18	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	राजस्व	1025756000		1025756000
		पूंजी	0		0
19	पर्यावरण एवं वन विभाग	राजस्व	1076203000		1076203000
		पूंजी	0		0
20	स्वास्थ्य विभाग	राजस्व	16590569000		16590569000
		पूंजी	1351500000		1351500000
21	मानव संसाधन विकास विभाग	राजस्व	85964188000		85964188000
		पूंजी	1340000000		1340000000
22	गृह विभाग	राजस्व	24259588000		24259588000
		पूंजी	1311300000		1311300000
23	उद्योग विभाग	राजस्व	2261160000		2261160000
		पूंजी	2680280000		2680280000
24	सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	राजस्व	442879000		442879000
		पूंजी	10000000		10000000
25	सूचना प्रावैधिकी विभाग	राजस्व	775009000		775009000
		पूंजी	426500000		426500000
26	श्रम संसाधन विभाग	राजस्व	1463493000		1463493000
		पूंजी	120000000		120000000
27	विधि विभाग	राजस्व	2546595000		2546595000
		पूंजी	0		0
28	उच्च न्यायालय	राजस्व	0	475737000	475737000
		पूंजी	0		0
29	खान एवं भूतत्व विभाग	राजस्व	130454000		130454000
		पूंजी	0		0

मांग/ विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	अनधिक राशियां		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	राजस्व	1956365000		1956365000
		पूंजी	159400000		159400000
31	संसदीय कार्य विभाग	राजस्व	11122000		11122000
		पूंजी	0		0
32	विधान मंडल	राजस्व	699136000	3101000	702237000
		पूंजी	0		0
33	कर्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	राजस्व	613551000		613551000
		पूंजी	200000000		200000000
34	बिहार लोक सेवा आयोग	राजस्व	0	99427000	99427000
		पूंजी	0		0
35	योजना एवं विकास विभाग	राजस्व	7859315000		7859315000
		पूंजी	177800000		177800000
36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	राजस्व	3522553000		3522553000
		पूंजी	9108150000		9108150000
37	ग्रामीण कार्य विभाग	राजस्व	4216134000		4216134000
		पूंजी	13170726000		13170726000
38	निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	राजस्व	637379000		637379000
		पूंजी	36237000		36237000
39	आपदा प्रबंधन विभाग	राजस्व	4226282000		4226282000
		पूंजी	0		0
40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	राजस्व	4710680000		4710680000
		पूंजी	60416000		60416000
41	पथ निर्माण विभाग	राजस्व	7073439000		7073439000
		पूंजी	25651300000		25651300000
42	ग्रामीण विकास विभाग	राजस्व	12311857000		12311857000
		पूंजी	1692000000		1692000000
43	विज्ञान एवं प्राविधिकी विभाग	राजस्व	360587000		360587000
		पूंजी	502200000		502200000
44	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	राजस्व	2965265000		2965265000
		पूंजी	138500000		138500000

मांग / विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	अनधिक राशियां		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
45	गन्ना उद्योग विभाग	राजस्व	450887000		450887000
		पूंजी	275200000		275200000
46	पर्यटन विभाग	राजस्व	66147000		66147000
		पूंजी	277800000		277800000
47	परिवहन विभाग	राजस्व	166071000		166071000
		पूंजी	514200000		514200000
48	नगर विकास एवं आवास विभाग	राजस्व	17544449000		17544449000
		पूंजी	0		0
49	जल संसाधन विभाग	राजस्व	8756380000		8756380000
		पूंजी	24877200000		24877200000
50	लघु जल संसाधन विभाग	राजस्व	3329831000		3329831000
		पूंजी	1667800000		1667800000
51	समाज कल्याण विभाग	राजस्व	20522716000		20522716000
		पूंजी	1040097000		1040097000
योग राजस्व			316474771000	42355134000	358829905000
योग पूंजी			98471934000	18841136000	117313070000
महायोग			414946705000	61196270000	476142975000

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
दिलीप कुमार सिन्हा,
प्रभारी सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 394-571+400-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>